



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 पौष, 1941 (श०)

---

संख्या- 1071 राँची, गुरुवार, 26 दिसम्बर, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
संकल्प

19 दिसम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-94/2017-27422 (HRMS)-- श्री राजेश एक्का, झा0प्र0से0, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3240, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध आवास योजना-ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत निबंधन, Geo Tag एवं स्वीकृत लाभकों का FTO Sign में कतिपय विलंब करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8143, दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री एक्का से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री एक्का के पत्रांक-830, दिनांक 18.08.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री एक्का के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10766, दिनांक 18.10.2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापक-150, दिनांक 12.03.2019 द्वारा इनके स्पष्टीकरण मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री एक्का के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री एक्का के स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-6367, दिनांक 07.08.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड,

झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2994, दिनांक 16.08.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री एक्का को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

अतः समीक्षोपरांत उपायुक्त, गढ़वा एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH EKKA 110013186518	श्री राजेश एक्का, झा0प्र0से0, (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रंका, गढ़वा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972.

-----